

डु डटेलो (डुशफायर) कु डुसडडड आफनु सुवसुथुडकु रकुषड डरुनुहुसु।



डटेलो (डुशफायर) कु धुवलु तडरुई र तडरुईकु डरुवरकु सुवसुथुलरुई असर डरुनु सुकुछ।

डटेलो (डुशफायर) कु धुवलुडडड डुररडुडु हुनु उकुड डुखुडडड रहुकु वुडुकुतुहरुः




डहलु डुखुनु डुडु वड
डुकुसुडु कु डडसुथु डरुकु,
वड डधुडुड डरुकु
डुडुकुतुहरु



डरुडुवतु



६५+ वरुष उडुडु
डरुकुहरु



शुशुहरु तथड डरुनु
डकुडरुहरु

तडरुईलु डरुलुनु सुकुनु कुडडडहरुः

- डडु तडरुई उकुड डुखुडडड हुनुहुनुकु डनु तुरनुत आडनु डुकुतुसुकुसुंग कुरु डरुनुहुसु।
- तडरुईकु डुषधु डुरुकु (डुरुसुकुरुषुन) हरु र सुवसुथु कुरुडु डुडुनरुहरु उडरुडरुणकड लरुगु तडरुईसुंग डुडु कुरुडु डुडुनरु (Asthma Action Plan) अधुवडवधुक कुनु कु कुनुनु डरुनु डरुनुहुसु।
- तडरुईलरुई आवुशुडुक डरुडरु तुरुनुतु डरुनुनुतु लरुगु तडरुईकड डुषधुडुहरु सुडुलु ठरुनुतु डरुनुडरु डरुनुहुसु। डडु तडरुई डुडुकु लरुगु डनुडुलरु डुरुडुग डरुनुहुनुकु डनु, डसुलरुई तडरुईकु सुडुसर सुंगु डरुनुडरु डरुनुहुसु।
- डरुडड डरुनु/ डनु१५ (P2/N95) डुस डरुसुकुहरुकु डुडुडुडरुत ररुखुनुहुसु र डसुलरुई कसरु ररुडुसुंग लरुगुडनु सुकुनुहुसु। डडु तडरुईलरुई डुडु वड डुकुसुडु कु सुडुसुथुडरु कुनु डनु डरुनु डरुनु डरुनु अधु तडरुईकु डुकुतुसुकुसुंग कुरु डरुनुहुसु।

डुकुतुसुकुड सुडुडरुवकु लरुगु
आडनु डुकुतुसुकु वड २ॡ-डणुतु
हुलुथ डरुडुरुकुतु हुलुडुलरुडुनु १ॢ००
०२२ २२२ डरु सुडुडुकु डरुनुहुसु।

डडु तडरुईलरुई डुडुडुषु डरुनुकुडु
डनु, अनुवड तथड डुडुडुषु सुवड
(टुआरुईडुसु; TIS) नुसनुललरुई १३१
ॡ५० डरु सुडुडुकु डरुनुहुसु र हुलुथ
डरुडुरुकुतु लरुगु अनुडुडु
डरुनुहुसु।

वडुकु गुणसुतर धुवलु डुरडरुवतु डरु कु डरुनु डनुनु डरुनुनुहुसुः

www.health.nsw.gov.au/bushfires

